



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 23, 1982/कार्तिक 1, 1904
No. 311] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1982/KARTIKA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1982

सं० 231/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 626 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 0-25 मि० मी० की मोटाई तक की ऐसी फिल्मों या शीटों का जिसमें यह मोटाई भी सम्मिलित है जो पॉलिबिनाइल क्लोराइड से विनिर्मित फिल्मों या शीटों से भिन्न है और जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पड़ती अनुसूची की मद 15क की उपमद (2) के अन्तर्गत आती है उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घरणार्थ समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह कि ऐसी वस्तुओं का उक्त मद 15A की उपमद (1) के अन्तर्गत घाने वाले कृत्रिम रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या सेलुलोज एस्टर और किसी प्रकार के ईशर से उत्पादन किया जाता है और जिन पर यथास्थिति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संघाय कर दिया गया है । .

[सं० 231/82-के० उ० शु०-का० सं० 93/28/81-के० उ० शु०-3]

एस० के० मल्ही, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 1982

No. 231/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts films or sheets upto and including thickness of 0.25 mm other than those manufactured from polyvinyl chloride, falling under sub-item (2) of Item 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that such articles are produced out of artificial resins or plastic materials or cellulose esters and others in any form falling under sub-item (1) of the said Item 15A on which the duty of excise under section 3 of the said Act or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.

[No. 231/82-CE-F. No. 93/28/81-CX. 3]

S. K. MALHI, Dy. Secy.